

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर
"संगम" सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर-26 एनआरआई सर्किल के पास, प्रतापनगर, जयपुर

क्रमांक 2019

दिनांक 01.7.2019

विजयवर्गीय राजसेवक परिषद, जयपुर को समाचार

"संगम भवन"- घोषणाओं की क्रियान्विति

विजयवर्गीय समाज बन्धुओं के उपयोग हेतु विजयवर्गीय राजसेवक परिषद, जयपुर द्वारा संचालित "संगम" सामुदायिक केन्द्र हेतु अनुदान राशि के अतिरिक्त -

1- भवन को IT के माध्यम से हाईटेक करने की दिशा में परिषद के पूर्व मुख्य संरक्षक व वर्तमान वरिष्ठ सलाहकार श्री राधेश्याम जी विजयवर्गीय (जज साहब) की प्रेरणा से इनके सुपुत्र श्री प्रमोद जी द्वारा भवन को 16 कैमरों से हाईटेक कर निम्न सामग्री का समावेश करते हुए - Panasonic 16 channel NVR 2mp..1 Number, Panasonic 2 mp IP camera 16 number segate 4 TB -HDD 1 Number, 8 Channel PoE switch 2 Number IO box 16 Numbers D link 4 rack 2 Number 32 inch LED 1 Number Centrex 3100 EPABX System 1 Number beetel caller Id Instrument 4 Numbers D link cat 6 cable-305 Mts 3 Numbers, DELTON 2 Pair Telephone Cable जिनकी लागत लगभग 2लाख रुपये है।

2- हवामहल पंखों के प्रमुख व्यवसायी दिल्लीE निवासी श्री ब्रजमोहन जी-सुशील कुमार विजयवर्गीय (आदर्श नगर) द्वारा संगम भवन में लगाने वाले समस्त पंखों की निःशुल्क व्यवस्था की घोषणा के अन्तर्गत संगम भवन के प्रथम चरण में 55 पंखें उपलब्ध कराये, जिनकी लागत लगभग 75 हजार रुपये है।

3- बिणजारी निवासी श्री बाबूलाल जी विजयवर्गीय-मुरलीपुरा द्वारा अपने सुपुत्र स्वर्गीय सुनील जी (मै.सुनील मार्बल्स) की याद में उनके जन्मदिन पर *संगम भवन की प्रत्येक मंजिल पर पर आमजन को ठंडे पानी की सुविधा हेतु वाटर कूलरों (मय RO सिस्टम) के लगाने की क्रियान्वित करते हुए वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए एक वाटर कूलर उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्व. श्री सुनील जी की भावनाओं के अनुरूप इनके परिवार द्वारा भवन में लगे ग्रेनाइट पत्थर की क्वालिटी, उचित दर व समय पर उपलब्ध कराया।

4- विजयवर्गीय के प्रमुख एक्सपोर्टर कोटखावदा निवासी श्री राजमल जी विजयवर्गीय (अध्यक्ष, सांगानेर विजयवर्गीय समाज समिति) द्वारा संगम भवन में लगे मुख्य द्वार की व्यवस्था की गई है।

5- तालाब निवासी विजयवर्गीय समाज के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी एवं समाज सेवक श्री श्याम जी विजयवर्गीय (Vijay Electric Service) विवेक विहार सोढाला द्वारा संगम भवन में भविष्य आधारित स्थापित 35किलोवाट बिजली कनेक्शन को मध्येनजर रखते हुए इनके द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी के समस्त बिजली के उपकरण (यथा- समस्त प्रकार के पाईप, वायर, छोटी-बड़ी केबल्स, स्विच व बोर्ड, बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी लाईटें, ट्यूबलाइट, सभी पेनल बाक्स मय समस्त सामग्री व अन्य प्रकार की विविध सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।

6- विजयवर्गीय समाज के प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवक श्री दिनेश कुमार जी विजयवर्गीय (LG वाले) पूर्व अध्यक्ष, अहमदाबाद विजयवर्गीय समाज (अलवर निवासी - बागात वाले) द्वारा संगम भवन हेतु उत्कृष्ट श्रेणी के 5 AC (Lloyd लायड कम्पनी) अनुदान स्वरूप निःशुल्क (मय सम्पूर्ण फिटिंग) उपलब्ध करा दिये हैं । अतुलनीय समर्पित भाव से दिये गये योगदान हेतु ऐसे सभी अनुदानदाताओं का राजसेवक परिषद, संगम निर्माण समिति इन सभी का आत्मीय आभार व्यक्त करता है। आपसे अनुरोध है - आप भी संगम भवन के विकास में आर्थिक अनुदान अथवा अन्य उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराते हुए सहयोगी बने।

संगम भवन का विकास

24 लाख 38 हजार के विकास कार्य स्वीकृत

विजयवर्गीय राजसेवक परिषद के माध्यम से संगम भवन के बाहर की ओर जीर्णशीर्ण अवस्था में अधूरे बने नाले का जीर्णोद्धार एवं भवन के बगल का कच्ची सड़क को पक्की करवाने हेतु 11 फरवरी, 2019 को नगर निगम, जयपुर से प्रयास आरम्भ किये जाकर त्वरित कार्यवाही कराते हुए उक्त कार्य हेतु 24 लाख 38 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति के वाञ्छित आदेश जारी कराकर संगम भवन व समाज हित के कार्यों में पूर्व की भांति (डीएलसी दर के 5% की रियायती दर पर 2904 वर्गगज भूमि का आवंटन) जैसी महत्वपूर्ण सफलता फिर से प्राप्त की गई है। यह राजसेवक परिषद की कार्यशैली और सभी की प्रेरणा का प्रतिफल है। आप सभी से भी आग्रह है - आप भी किसी भी रूप में संगम भवन व समाज के विकास में भागीदारी बनकर सहयोगी बने।

विधवा पेंशन स्वीकृत

विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद, जयपुर के माध्यम से संचालित "श्रीमती सम्पतिदेवी विजयवर्गीय राजसेवक परिषद सर्वजन हितकारी स्थाई कोष" न्यास की दिनांक 25 जून, 2019 को सम्पन्न बैठक में विजयवर्गीय समाज विधवाओं को पेंशन दिये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श कर 1-श्रीमती कलावती देवी विजय-त्रिवेणीनगर, 2-श्रीमती गीतादेवी विजय-पीपलू हॉल निवासी जयपुर, एवं श्रीमती चन्द्रकान्ता विजय-चांदपोल बाजार, जयपुर को माई जुलाई, 2019 से जून, 2022 (तीन वर्ष) की अवधि के लिये प्रति माह 1000 रुपये पेंशन के रूप में स्वीकृत की गई । यह राशि संबंधित के बैंक खाते में माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से प्रति माह स्वतः ही जमा होती रहेगी ।

सभी से अनुरोध है कि राजस्थान प्रान्त में निवासित समाज बन्धुओं के ऐसे प्रकरण आपके ध्यान में आते हैं तो राजसेवक परिषद की वेबसाईट www.vijayrajsevak.org में उपलब्ध वांछित आवेदन के अनुसार अवगत कराने का कष्ट करें ताकि इस न्यास के माध्यम से अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाकर समाज की सच्ची मायने में सेवा की जा सके ।

(गिरधर विजयवर्गीय)

प्रवक्ता